

क्षतिपूर्ति पत्र LETTER OF INDEMNITY

(राज्य के लिए लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार विधिवत मुद्रांकित कियाजा ना है)
(To be duly stamped as per the Stamp Act applicable to the State)
(मृतक ग्राहक के खाते में कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना शेष राशि के भुगतान के सम्बंध में क्षतिपूर्ती पत्र)
(Letter of Indemnity with respect to payment of Balance in the Deceased Constituents' Account without Production of Legal Representations
सेवा में/To,
शास्त्रा प्रबंधक/The Branch Manager
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बेंक/India Post Payments Bank
शाखा/Branch
हमें भुगतान करने या भुगतान करने हेतु सहमत होने के विचार से
IN CONSIDERTION of your paying or agreeing to pay us,
दावेदार/(रों) के नाम दें/Insert here the name(s) of the claimants
1)
2)
3)
4)
5)
6)
कुल रुपया/The sum of ₹
श्री/श्रीमती/कुमारी
की बचत बैंक/चालू खाता संख्या
की स्थायी जमा आपकी बैंक में है। बेहांत के बाद प्रशासन की प्रस्तुति के बिना या अपनी सम्पत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या सम्पत्ति के नियंत्रक से प्रमाणपत्र के अनुसार विधिवत रूप
से सम्पत्ति का भुगतान किया गया है, या भुगतान किया जायेगा या कोई देय नहीं है।
Standing at the credit of Savings Bank/Current etc.
with your bank in the name of Shri/Smt./Kum.
since deceased, without production of Letters of Administration or a Succession Certificate to his /her estate or a Certificate from the Controller of Estate Duly to the
effect that estate duly has been paid or will be paid or none is due.
*जमानतदार(रों) के नाम(मों) को अंकित करें।/*Provide here the name(s) of the surety (ies)
1 2 2
हम एतब्रह्मरा अपने और हमारे वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा आपको एवं आपके उत्तराधिकारियों को क्षांतिपूर्ति हेतु संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से वचन एवं सहमति
देते हैंऔर आपके द्वारा उपर्युक्त राशि का भुगतान या भुगतान हेतु सहमत होने के कारण या परिणाम स्वरूप आपके द्वारा उठाये गये या खर्च किये जाने वाले सभी दावों, मांगो, कार्यवाहियों,
नुकसानों, क्षतिपूर्तियों, प्रभारों एवं खर्चों के विरुद्ध निर्दृष्ट करते हैं।
We do hereby for ourselves and our heirs, legal representatives' executors and administrators, jointly and severally UNDERTAKE AND AGREE to indemnify you and
your successors and assign against all claims, demands, proceedings, losses, damages, charges and expenses which may be raised against or incurred by you by
reasons or in consequence of your having agreed to pay / or paying me / us the said sum as aforesaid.
दिनांक को उपर्यक्त नाम द्वारा हस्ताक्षर, महरबंद एवं सपर्दनी की गई।

Signed, Sealed and delivered
By the above named on this Day of two thousand
द्वारा हस्ताक्षर एवं सुपुर्वगी उपर्युक्त बाम SIGNED AND DELIVERED by The above named
SIGNED / WAS DELIVERED by the above hamed
1.
2.
3.
4.
5.
(मृतक के वारिस/दावेदार)/(heirs/claimants of the deceased)
द्वारा हस्ताक्षर एवं सुपुर्दगी
SIGNED AND DELIVERED by
1.
2.

(जमानतदारों/Sureties)

Page 02